

स्पीड पोस्ट/SPEED POST

फाइल सं. आईआईटीएम/आरटीआई/नवम्बर 19/File no. IITM/RTI/Nov.19
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान/Indian Institute of Tropical Meteorology
(भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान / An Autonomous Institute of Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)

डॉ. होमी भाभा रोड/Dr. Homi Bhabha Road,
पाषाण/Pashan, पुणे/Pune -411008. भारत/India

आईआईटीएम/आरटीआई/ फरवरी 20/ IITM/RTI/Feb.20/

दिनांक/Date : फरवरी 2020

06 FEB 2020

सेवा में/To,

Shri Ajay Maruti Chole,
House No. 212, New Eknathnagar,
Near Government Polytechnic,
Aurangabad 431 005

विषय /Sub : सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना ।

Seeking information under RTI Act, 2005

संदर्भ/Ref. : आरटीआई आवेदनपत्र 16.01.2020 जो दिनांक 23.01.2020 को सीपीआईओ
आईआईटीएम पर प्राप्त हुआ ।

RTI application dated 16.01.2020 which was received at CPIO, IITM on
23.01.2020.

महोदय /Dear Sir,

कृपया अपना उपर्युक्त विषय संबंधी दिनांक 16.01.2020 का आवेदनपत्र देखें, जो दिनांक
23.01.2020 को इस कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है ।

Please refer to your RTI application dated, 16.01.2020 which was received by this office on
23.01.2020 on the above mentioned subject.

आयआईटीएम /आरटीआई/जनवरी 20/00002, दिनांक 03.02.2020 के अनुसार संबंधित
अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया उत्तर इसके साथ संलग्न है ।

The reply provided by the concerned office vide no. IITM/RTI/Jan.2020/00002 dated
03.02.2020 is enclosed herewith.

-2-

यदि आप सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण से, ऐसा कर सकते हैं।

In case you intend to prefer an appeal as per section 19 of the Right to Information Act, 2005, you may do so to Appellate Authority, within 30 days of the receipt of this letter.

अपीली प्राधिकारी / Appellate Authority :

प्रोफेसर रवि एस. नन्जुनडैया, निदेशक / Prof. Ravi S. Nanjundiah, Director

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान / Indian Institute of Tropical Meteorology

डॉ. होमी भाभा रोड़, पाषाण, पुणे - 411 008 / Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune - 411 008.

आपका / Sincerely,

sdh

(अनुपम हाजरा) / (Anupam Hazra)

वैज्ञानिक -एफ तथा कें.ज.सू.अ., आईआईटीएम
Scientist F & CPIO, IITM

Copy to :

1. India Meteorological Department - With referenc e No. IMETD/R/T/20/00002/1
2. LIP Section - for upload in RTI page.

अनुपम हाजरा 06/02/20

(अनुपम हाजरा) / (Anupam Hazra)

वैज्ञानिक एफ तथा कें.ज.सू.अ., आईआईटीएम
Scientist F & CPIO, IITM

Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune

IITMT/R/T/20/00002

03/02/2020

Sub: RTI of Shri Ajay Maruti Chole

House No.212, New Eknathnagar, near Govt. Polytechnic, Aurangabad-431005

Ref: IMETD/R/T/20/00002/1 dated 16th Jan 2020

RTI application is received from Shri Ajay Maruti Chole, Aurangabad, who has written to the Office of our honorable Prime Minister and requested a) to provide him the detailed information on why so far in India we have not experimented with Rainfall Enhancement using Laser Technology and b) whether Government funded research projects are going on to investigate such a technology. He has submitted the details of the technology with his request for consideration.

Following reply is prepared for the RTI

Q: Detailed information on why so far in India we have not experimented with Rainfall Enhancement using Laser Technology

Ans: There are no weather modification programs/ projects addressing such aspect as there were no documented evidence on laser technology giving promise for rain enhancement. Most of the evidence of particle growth are seen in the laboratories and is not having scientific basis to make precipitation.

Q: Whether Government funded research projects are going on to investigate such a technology.

Ans: No weather modification research projects with Laser technology is ongoing at IITM.

forwarded
[Signature]
Admin Officer (LACO)

[Signature]
Project Director, CAIPEEX (PDTIC)

~~CPIO~~

- 1) Pl. forward to RTI applicant.
- 2) IMD (from where it was forwarded)
- 3) LP, IITM for upload.

अजय मरुती चोले
04/02/2020